



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 अग्रहायण 1934 (श0)
(सं0 पटना 643) पटना, सोमवार, 3 दिसम्बर 2012

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

29 नवम्बर 2012

सं0 4 (न) गठ-3/2011-4195/न0वि0एवं.आ0वि0—बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा-3 सह पठित धारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नलिखित आदेश का प्रारूप, जिसे वह निर्गत करना चाहते हैं, उससे प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन से एक माह के भीतर उक्त प्रारूप पर विचार किया जाय।

प्रारूप प्रकाशन की अवधि में संबंधित प्रण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी के माध्यम से जो भी आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त होंगी उनपर उक्त अधिनियम की धारा-5 के अधीन विचार किया जायेगा।

प्रारूप आदेश

संख्या-4 (न) गठ-3/2011-4195/न0वि0एवं.आ0वि0—बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा-3 की उप-धारा (1) (ग) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल घोषित करते हैं कि उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ रोहतास जिलान्तर्गत कोचस के निम्नांकित ग्रामों की परिधि में पड़ने वाले क्षेत्रों में, जिनकी चौहद्दी नीचे दी गई है, प्रशासनिक उपबंध करना तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों को उक्त क्षेत्र में लागू करना आवश्यक है:-

1. (क) ग्रामों के नाम एवं थाना नं0

(क)	ग्राम का नाम	थाना सं0
	1. कोचस	285
	2. कोरीगांवा	002
	3. ओझवलिया	0011
	4. परसिया	282

(ख) चौहद्दी

उत्तर	नरवर
दक्षिण	कुसही गौड़ा
पूरब	नोवां
पश्चिम	हरिनाथपुर सिमरिया

इस क्षेत्र को नगर पंचायत, कोचस कहा जायेगा।

2. यह अधिसूचना तुरंत प्रवृत्त होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरविन्द कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

29 नवम्बर 2012

सं० 4 (न) गठ-3/2011-4195/न०वि०एवंआ०वि० का निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरविन्द कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

The 29th November 2012

No. 4 (N) Gath-3/2011-4196/UD&HD—In exercise of powers conferred by section 3 read with section-4 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11,2007) the Governor of Bihar desires to publish the following draft order, which is published for the information of those who are likely to be affected by it and notice is hereby given that the said draft would be considered within a month from the publication of this notification.

Objections/Suggestions received through the concerned Divisional Commissioner/ District Magistrates during the draft publication will be considered under section-5 of the said Act.

Draft Order

No. 4 (N) Gath-3/2011-4196/UD&HD—In exercise of powers conferred by sub section (1) (c) of Section-3 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11,2007) the Governor of Bihar declares that for the purpose of the said Act, it is necessary to make an administrative provision and to enforce the provisions of the said Act in the following areas falling under Kochas villages in the District of Rohtas whose boundary are noted below:-

1 (a) Name of villages and Thana Nos.

<u>Name of Village</u>	<u>Thana No.</u>
1. Kochas	285
2. Korigawa	002
3. Ojhawaliya	0011
4. Parsiya	282

(b) Boundary:-

North-	Narwar
South-	Kushi Gaura
East-	Nauwa
West-	Harinathpur Simriya

This area will be called Nagar Panchayat, Kochas

2. This notification shall come to force at once.

By order of the Governor of Bihar,
ARVIND KUMAR SINGH,
Joint Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 643-571+50-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>